



Aggarsain Spinners Limited

November 14, 2024

The Head-Listing & Compliance
Metropolitan Stock Exchange of India Ltd.
205(A), 2nd Floor, Piramal Agastya Corporate Park
Kamani Junction, LBS Road, Kurla (West), Mumbai-
400070

Symbol: AGGARSAIN
Series: BE

Sub: Submission of Newspaper Clippings

Re: Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Regulation 47 read with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company has published the Un-audited Financial Results for the 2nd quarter & half year ended on September 30, 2024, within 48 hours after approval of the same in the Board Meeting of the Company held on Wednesday, 13th November, 2024 in the following Newspapers:

- English Language National Daily Newspaper: "**Financial Express**" dated 14/11/2024.
- Regional Language Daily Newspaper: "**Jansatta**" dated 14/11/2024.

We request you to kindly take this information on record.

Thanking you,

Yours Faithfully,

For Aggarsain Spinners Limited

SUNNY

GARG

Sunny Garg
Managing Director
DIN: 02000004

Digitally signed by
SUNNY GARG
Date: 2024.11.14 11:43:28
+05'30'

Encl.: As above

Form No INC-25A
 [Pursuant to Rule 41 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
 Advertisement to be published in the newspaper for conversion of
 Public Company into a Private Company
Before the Central Government
Regional Director, Northern Region, New Delhi
 In the matter of the Companies Act, 2013, Section 14 of Companies Act, 2013
 and rule 41 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014
AND
 In the matter of M/S. OAK INFRASTRUCTURE DEVELOPERS LIMITED
 (CIN: U70109DL2009PLC194999) having its Registered Office
 at Unit No. 101, 1st Floor, Worldmark 2, Asset 8, Aerocity, IGI Airport,
 South West Delhi, New Delhi - 110037, India

Applicant Company / Petitioner
 NOTICE is hereby given to the General Public that the Applicant Company
 proposes to make an application to the Central Government under section 14 of
 the Companies Act, 2013 read with aforesaid rules and is desirous of converting
 into a Private Limited Company in terms of the Special Resolution passed at the
 Extra Ordinary General Meeting held on Friday, the 8th day of November 2024,
 to enable the applicant Company to give effect for such conversion.
 Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change/
 change in status of the Company may deliver or cause to be delivered or send by
 registered post his/her objections supported by an affidavit stating the nature of
 his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director, Northern
 Region, Ministry of Corporate Affairs at the address: B-2 Wing, 2nd Floor,
 Pt. Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003, within
 fourteen (14) days from the date of publication of this notice with a copy to the
 Applicant Company at its registered office address mentioned below:
Address of Registered Office: Unit No. 101, 1st Floor, Worldmark 2, Asset 8,
 Aerocity, IGI Airport, South West Delhi, New Delhi - 110037, India.
For and on behalf of
Oak Infrastructure Developers Limited
 Sd/-
Nitesh Bhasin
 Director
 DIN - 09748946
Date: 13 November, 2024
Place: New Delhi

BSE Limited
 25th Floor, P. J. Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001
 Tel. No. 22721233 / 34 Fax No. 22721003 • www.bseindia.com
 CIN No.: L67120MH2005PLC155188
NOTICE
 Notice is hereby given that the following Trading Member of BSE Limited has requested
 for the surrender of its trading membership of the Exchange:

Sr.No.	Name of the Trading Member	SEBI Regn. No.	Closure of business w.e.f.
1	Prudent Broking Services Pvt.Ltd.	INZ000166234	16/09/2024
2	Pentagon Stock Brokers Pvt. Ltd.	INZ000068338	09/08/2024

The constituents of the above-mentioned Trading Member are hereby advised to lodge
 complaints, if any, within one month of the date of this notification for the purpose of
 processing the surrender application submitted to BSE. However, constituents are
 requested to note that complaints, if any, which are not filed within the aforesaid
 timeframe, may be filed against the above-mentioned Trading Member within the
 stipulated timeframe prescribed by SEBI from time to time. The complaints filed
 against the above-mentioned Trading Member will be dealt in accordance with the
 Rules, Byelaws, Regulations and notices of the Exchange and circulars issued by SEBI
 from time to time.
 The constituents can file complaints against the abovementioned Trading Member at
 the nearest Regional Investor Service Centre of BSE in the prescribed complaint form or
 submit their complaints along with necessary documents on email id -
 dis@bseindia.com
 For further details relating to the complaint form, filing of eComplaint, etc. please visit
 https://www.bseindia.com/static/investors/cac_tm.aspx
 For BSE Limited
 Sd/-
 General Manager
 Membership Operations &
 Membership Compliance
Place: Mumbai
Date: November 14, 2024

MADRAS FERTILIZERS LIMITED
 (A Government of India Undertaking)
Regd. Office : Manali, Chennai 600 068.
 CIN - L32201TN1966GOI005469 Web : www.madrasfert.co.in

EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2024 (In lakhs except EPS)

S. No.	Particulars	Quarter Ended		Half Year Ended		Year Ended
		30.09.2024	30.06.2024	30.09.2023	30.09.2024	
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total Income from operations (net)	53242	65515	38525	118757	91369
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	332	5409	335	5741	(3105)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	332	5409	335	5741	(3105)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	158	4048	335	4206	(3105)
5	Total Comprehensive income for the period (Comprising Net Profit / (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax))	9878	4048	335	13926	5893
6	Equity Share Capital	16110	16110	16110	16110	16110
7	Earnings per Share (of ₹ 10/- each) (for continuing and discontinued operations)	0.10	2.51	0.21	2.61	(1.93)
	a. Basic	0.10	2.51	0.21	2.61	(1.93)
	b. Diluted	0.10	2.51	0.21	2.61	(1.93)

Note:
 1. The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors of the Company at their meeting held on November 13, 2024 and the Statutory Auditor of the Company has issued their Limited Review Report on the same.
 2. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Half Yearly Unaudited Financial Results are available on Stock Exchange website, www.nseindia.com and on the Company's website www.madrasfert.co.in.
 By order of the Board
 Sd/-
MANOJ KUMAR JAIN
 Chairman & Managing Director
 DIN : 10690782
Place: Chennai
Date: November 14, 2024

FORM G (3rd Time)
INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR NAOLIN INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED OPERATING ASEP IN POWER AND INFRASTRUCTURE INDUSTRY
 (Under sub-regulation (1) of regulation 36A of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency) Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

RELEVANT PARTICULARS

1. Name of the corporate debtor along with PAN/CIN/LLP No.	M/S.Naolin Infrastructure Private Limited CIN:U45200TG2010PTC068516
2. Address of the registered office	H.No. 6-3-1090/11, 3rd Floor, Uma Hyderabad House, Raj Bhawan Road, Somajiguda, Hyderabad - 500 082 TG
3. URL of website	http://www.naolininfra.com
4. Details of Place where majority of fixed Assets are located	Hyderabad in Telangana State and equipment's at sites in various parts in the country
5. Installed capacity of main products/services	Not applicable Corporate Debtor undertakes projects based on participation in Tenders.
6. Quantity and value of main products/services sold in last financial year	Turnover as per the latest available audited financials For FY 2022-23 Rs. 168.07 crores. For FY 2023-24 not available.
7. Number of employees/workmen	Nil
8. Further details including last available financial statements (with schedules) of two years, lists of creditors, relevant dates for subsequent events of the process are available at:	Latest available audited financials for FY 2022-23 and Provisional financials for FY 2023-24 can be obtained by writing to email to the Resolution Professional at: cirp.naolin@gmail.com
9. Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:	Can be obtained by writing to email to the Resolution Professional at: cirp.naolin@gmail.com
10. Last date for receipt of expression of interest	29-11-2024
11. Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	09-12-2024
12. Last date for submission of objections to provisional list	14-12-2024
13. Date of issue of final list of prospective resolution applicants	24-12-2024
14. Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	29-12-2024
15. Last date for submission of resolution plans	28-01-2025
16. Process email id to submit Expression of Interest	cirp.naolin@gmail.com

Malgudi Madhusudhana Reddy,
 Resolution Professional,
 Naolin Infrastructure Private Limited
 Regn. No. IBBI/PA-001/PP-000843/2017-2018/11427
 AFA: AA111427/02311225/107442,
 valid up to 31-12-2025
 MMR Lion Corp, 4th Floor, HSR Eden,
 Beside Cream Stone, Road No.2, Banjara Hills, Hyderabad, Telangana-500034
 Email: cirp.naolin@gmail.com
Date: 14.11.2024
Place: Hyderabad

NATCO Pharma Limited
 Regd. Office: Natco House, Road No.2, Banjara Hills, Hyderabad-500 034, Phone: 040-23547532
 Email: investors@natcopharma.co.in CIN: L24307G1981PLC003201, www.natcopharma.co.in

REVISED RECORD DATE
 The Company hereby informs that the Board of Directors vide Circular Resolution dated 13th November, 2024 revised the Record date for payment of 2nd Interim Dividend to the shareholders of the Company whose name appear in the Register of Members of the Company or in the records of the Depositories as beneficial owners of the said shares as on **27th November, 2024** being the Record Date. The payment of said Interim dividend will start from 4th December, 2024.
 For NATCO PHARMA LIMITED
 Sd/- Ch. Venkat Ramesh
 Place: Hyderabad
 Date: 13-11-2024
 Company Secretary & Compliance Officer

"IMPORTANT"
 Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

DHARANI SUGARS AND CHEMICALS LIMITED
 Regd. Office: "PGP House", New No.59 (Old No.57) Sterling Road, Nungambakkam, Chennai 600 034
 Tel. No.91-44-28311313, Fax No.091-44-28320274. CIN - L15421TN1987PLC014454
 Email id: secretarial@dharaanisugars.com, Website: www.dharaanisugars.com

Statement of Standalone Unaudited financial results for the Quarter and Half year ended September 30, 2024 (Rs. In Lakhs)

Sl No	Particulars	Quarter ended		Half year ended		Year ended
		September 30, 2024 (Unaudited)	June 30, 2024 (Unaudited)	September 30, 2023 (Unaudited)	September 30, 2024 (Unaudited)	
1.	Total Income from Operations (Including Other Income)	27.69	4.09	-	31.78	14.25
2.	Profit (Loss) for the period (before tax and exceptional items)	(1,085.25)	(856.17)	(684.05)	(1,941.42)	(1,424.39)
3.	Profit (Loss) for the period before tax (after exceptional items)	(1,085.25)	(856.17)	(684.05)	(1,941.42)	(1,424.39)
4.	Profit (Loss) for the period after tax (after exceptional items)	(2,595.25)	(1,342.59)	(684.18)	(3,937.84)	(1,424.86)
5.	Other comprehensive income (net of tax)	-	-	-	-	-
6.	Total Comprehensive Profit (Loss) for the period (Comprising Profit (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	(2,595.25)	(1,342.59)	(684.18)	(3,937.84)	(1,424.86)
7.	Equity Share Capital	3,320.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00
8.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	NA	NA	NA	NA	NA
9.	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations)	(7.82)	(4.04)	(2.06)	(11.86)	(4.29)
	a. Basic	(7.82)	(4.04)	(2.06)	(11.86)	(4.29)
	b. Diluted	(7.82)	(4.04)	(2.06)	(11.86)	(4.29)

Note: The above is an extract of the detailed format of the unaudited financial results for the quarter and half year ended September 30, 2024 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2024 are available on the stock exchange websites: www.bseindia.com and www.nseindia.com of the Stock Exchanges, where the Company's shares are listed and on the website of the Company i.e., www.dharaanisugars.com
 For Dharani Sugars and Chemicals Limited
 Dr. Palani G Periasamy
 Executive Chairman
 DIN: 00081002
Place: Chennai
Date: 13th Nov. 2024

KALYAN CAPITALS LIMITED
 (formerly known as Akashdeep Metal Industries Limited) CIN: L2898DL1983PLC017150
 Registered Office: Plaza-3-P-204, 1st Floor, Central Square, 20 Manohar Lal Khurana Marg, Bara Hindu Rao, Delhi-110006,
 Website: www.kalyancapitals.com, Email: info@kalyancapitals.com
EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED ON 30TH SEPTEMBER, 2024 (Amount in Lacs)

S. No.	Particulars	Quarter Ended		Half Year Ended		Financial Year Ended 31.03.2024
		30.09.2024	30.09.2023	30.09.2024	30.09.2023	
		UnAudited	UnAudited	UnAudited	UnAudited	Audited
1	Total income from operations	671.21	724.66	1,394.92	1,394.92	3,328.99
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax Exceptional and/or Extraordinary items)	215.51	225.91	493.74	493.74	940.93
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	215.51	225.91	493.74	493.74	940.93
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	155.16	169.51	273.52	273.52	738.58
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	155.16	169.51	273.52	273.52	738.58
6	Paid up Equity Share Capital	1050.26	1,050.26	1,050.26	1,050.26	1,050.26
7	Earning Per Share (of ₹ 2/- each) Basic and diluted (not annualised)	0.30	0.33	0.52	0.52	1.41

Note: 1) The above is an extract of the detailed format of result for Quarter and half year ended on September 30th, 2024 filed with stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the said results are available on the website of BSE at www.bseindia.com as well as on the Company's website at www.kalyancapitals.com.
 2) The Key Standalone Financial information for the Quarter and half year ended on September 30th, 2024 are given below:

S. No.	Particulars	Quarter Ended		Half Year Ended		Financial Year Ended 31.03.2024
		30.09.2024	30.09.2023	30.09.2024	30.09.2023	
		UnAudited	UnAudited	UnAudited	UnAudited	Audited
1	Turnover	459.92	512.49	903.87	1,999.43	1,999.43
2	Profit before tax	49.19	59.87	90.46	90.46	195.90
3	Profit after tax	38.97	59.68	68.42	68.42	135.97

By order of the Board
 For Kalyan Capitals Limited
 Sd/-
Sanjeev Singh
 Chairperson & Director
 DIN : 00922497
Place: Ghaziabad
Date: 13.11.2024

PRINCE PIPES AND FITTINGS LIMITED
 Regd Off: Plot No.1, Honda Industrial Estate, Phase II, Honda Sattari, Honda, Goa 403 530
 Corp Off: 8th Floor, The Ruby, 29, Senapati Bapat Marg, (Tulsi Pipe Road), Dadar West, Mumbai 400028
 Tel No.: 022-6602 2222 | Fax No.: 022 6602 2220
 Email id.: investor@princepipes.com | Website: www.princepipes.com
 CIN: L26932GA1987PLC006287

PUBLIC NOTICE
Form no INC-26
 [Pursuant to rule 30 the Companies (Incorporation) Rules, 2014]
BEFORE THE REGIONAL DIRECTOR, WESTERN REGION, MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS IN THE MATTER OF THE SUB-SECTION (4) OF SECTION 13 OF THE COMPANIES ACT, 2013 AND CLAUSE (a) OF SUB-RULE (5) OF RULE 30 OF THE COMPANIES (INCORPORATION) RULES, 2014
AND
IN THE MATTER OF PRINCE PIPES AND FITTINGS LIMITED INCORPORATED UNDER COMPANIES ACT, 1956 AND HAVING ITS REGISTERED OFFICE AT PLOT NO.1, HONDA INDUSTRIAL ESTATE, PHASE II, HONDA SATTARI, HONDA, GOA - 403530.

THE PETITIONER
 Notice is hereby given to the General Public that the Company proposes to make application to the Regional Director under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Annual General Meeting held on 11th September, 2024 to enable the Company to change its registered office from the State of "Goa" to the Union Territory of "Dadra and Nagar Haveli".
 Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the Registered Office of the Company may deliver either on MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his / her objections supported by an affidavit, stating the nature of his / her interest and the ground of opposition to the Office of the Hon'ble Regional Director, Everest 5th Floor, 100 Marine Drive, Mumbai-400002, Maharashtra, within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the Applicant Company at its registered office address mentioned below
Registered Office :
 Plot No.1, Honda Industrial Estate,
 PHASE II, HONDA SATTARI HONDA, GOA - 403530,
 Sd/-
Jayant Shamji Chheda
 Managing Director
 (DIN: 00013206)
Place : Mumbai
Date : November 13, 2024

ELPRO INTERNATIONAL LIMITED
 REGISTERED OFFICE: 17th FLOOR, NIRMAL BUILDING, NARIMAN POINT, MUMBAI - 400021
 CIN: L51505MH1962PLC012425

EXTRACTS OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30,2024 (Currency: Indian rupees in lakhs)

Sr. No.	Particulars	Standalone Quarter ended		Standalone Half year ended		Standalone Year ended
		30.09.2024	30.06.2024	30.09.2023	30.09.2024	
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	10,897.65	2,764.01	2,754.79	13,661.66	5,469.66
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	2,122.54	657.38	1,371.02	2,779.91	2,451.13
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,122.54	657.38	1,371.02	2,779.91	2,451.13
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	2,251.74	653.41	1,450.62	2,905.15	1,968.29
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	18,514.69	19,290.53	6,517.47	37,805.22	15,035.40
6	Paid up equity share capital (face value of Re 1/- each)	1,694.79	1,694.79	1,694.79	1,694.79	1,694.79
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	1,91,822.47	1,73,307.78	1,38,349.02	1,91,822.47	1,38,349.02
8	Earnings Per Share (of ₹ 1/- each) (Not annualised)	1.33	0.39	0.86	1.71	1.16
	1. Basic	1.33	0.39	0.86	1.71	1.16
	2. Diluted	1.33	0.39	0.86	1.71	1.16

EXTRACTS OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30,2024 (Currency: Indian rupees in lakhs)

Sr. No.	Particulars	Consolidated Quarter ended		Consolidated Half year ended		Consolidated Year ended
		30.09.2024	30.06.2024	30.09.2023	30.09.2024	
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	20,741.61	13,931.09	3,526.85	34,672.71	8,676.82
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	3,877.96	6,040.11	1,854.99	9,918.07	4,914.98
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3,884.89	6,047.37	1,858.50	9,932.26	4,923.16
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3,222.15	4,754.96	1,823.10	7,977.11	3,773.50
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	19,559.45	23,405.91	6,878.47	42,965.36	16,961.81
6	Paid up equity share capital (face value of Re 1/- each)	1,694.79	1,694.79	1,694.79	1,694.79	1,694.79
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	2,02,014.22	1,82,454.78	1,41,255.56	2,02,014.22	1,41,255.56
8	Earnings Per Share (of ₹ 1/- each) (Not annualised)	1.90	2.81	1.08	4.71	2.23
	1. Basic	1.90	2.81	1.08	4.71	2.23
	2. Diluted	1.90	2.81	1.08	4.71	2.23

Note:
 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchanges website (www.bseindia.com)

For Elpro International Limited
 Sd/-
Deepak Kumar
 Director
 DIN: 07512769
Place: Mumbai
Date: November 12, 2024

ALPHALOGIC
 CIN: L72501PN2018PLC180757
 Registered office: 405, Pride Icon, Kharadi, Pune-411014 (MH)
 Email: info@alphalogiclimited.com, Web: www.alphalogicinc.com

Extract of Statement of Unaudited Consolidated Financial Results for the Quarter and half year ended September 30, 2024. (in lakhs)

S.No.	Particulars	Quarter Ended (Unaudited)		Half year Ended (Unaudited)		Year Ended (Audited)
		30th September, 2024	30th June, 2024	30th September, 2024	30th September, 2023	
1	Total income from Operations	1,964.50	2,456.90	4,421.40	2,266.31	5,565.04
2	Net					

LORENZINI APPARELS LIMITED

CIN: L17120DL2007PLC163192

Reg. Off: C-64, OKHLA INDUSTRIAL AREA PHASE-I NEW DELHI 110020

Email: es@mymonteil.com website: www.mymonteil.com

Particulars	Rs. In Lakhs			
	Quarter Ended		31st March 2024	
	30th September 2024	30th June 2024	31st March 2024	31st March 2024
Total Income from operations	1,305.08	1,517.66	996.59	5,475.92
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	1,596.45	228.49	25.99	724.06
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	1,596.45	228.49	25.99	724.06
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	1,217.04	185.77	31.51	529.66
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	1,219.50	185.76	30.34	530.37
Equity Share Capital (Face value of Re. 10/- each)	1,727.37	1,591.61	1,566.89	1,566.89
Reserves Excluding revaluation reserves as per Balance Sheet of previous accounting year (31.03.2023)				504.08
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) -				
1. Basic:	0.70	0.12	0.02	0.34
2. Diluted:	0.70	0.12	0.32	0.32

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites. www.mymonteil.com

SMFG INDIA CREDIT COMPANY LIMITED (Formerly Fullerton India Credit Company Limited)

कार्यालय: 10वीं मंजिल, कार्यालय सं. 101, 102 तथा 103, 2 नॉर्थ एवेन्यू, मेकर मैसिटी, वांडा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, वांडा (पू.), मुंबई-400051

कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष (प्रत्येक) दिनांक 31 मार्च को निम्न (1) के तहत प्रत्येक वर्ष के प्रारंभिक तिमाही वित्तीय परिणामों एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत हाइसिड फाइनेंस कम्पनी एग्रेसिव फंडिंग इण्डिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड (पूर्व की फुलरटन इंडिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड), पंजीकृत कार्यालय मेघ टावर, तीसरी मंजिल, पुराना नंबर 207, नया नंबर 165, पुनर्माटी हार्ड रोड मद्रासवेल्, चेन्नई, तमिलनाडु-600095 और कॉर्पोरेट कार्यालय 10वीं मंजिल, कार्यालय नंबर 101, 102 और 103, 2 नॉर्थ एवेन्यू, मेकर मैसिटी, वांडा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, वांडा (पू.), मुंबई - 400051, का अधिभूत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में निम्नलिखित कर्जदारों से कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर कथित सूचना में उल्लिखित तथ्य तथा उस पर व्याज का पुनर्निर्माण करने को कहते हुए कथित अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नीचे उल्लिखित तिथि पर मांग सूचना जारी की गई।

नीचे उल्लिखित कर्जदार (रों) के पुनर्निर्माण में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदारों) तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 उपधारा (4) के तहत उक्त प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे उल्लिखित समितियों पर कब्जा कर लिया है।

कर्जदार/सह-कर्जदारों/गारंटियों का नाम तथा श्रेणियाँ	मांग सूचना की तिथि तथा प्राप्ति	अचल सम्पत्ति/व्यक्त सम्पत्तियों का विवरण	कब्जे की तिथि
1. रस्तोनी इलेक्ट्रिकल्स	23 अगस्त, 2024 से	संपत्ति की मालिक-श्रीमती चंद्रवती संपत्ति विवरण: मकान संख्या 544/526एन, प्लॉट संख्या 76सी पर निर्मित भूमि के साथ, 500 वर्ग फुट माप, खसरा संख्या 561 का केवल एक हिस्सा, बरौदा हुसैनवाड़ी, चाई-कहैया माधवपुर, लखनऊ में स्थित, इसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व: 15 फुट चौड़ी सड़क, पश्चिम: रामशंकर मिश्रा का मकान, उत्तर: प्लॉट संख्या 76सी, दक्षिण: हरिशंकर मिश्रा का मकान।	कब्जे का प्रकार 12-11-2024 सांकेतिक कब्जा

विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति से किसी प्रकार का संभव्यहानि न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का संभव्यहानि नीचे उल्लिखित शक्ति तथा उस पर व्याज के लिए 'एग्रेसिव फंडिंग' के प्रभार का निवृत्त होना। प्रतिभूति आस्तियों को विनिर्मित करने के लिए उपलब्ध सम्य-सीमा के परिशेष में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) को ध्यान अतिरिक्त किया जाता है।

स्थान : लखनऊ दिनांक : 14.11.2024

एसएमएफजी इण्डिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड (पूर्व की फुलरटन इंडिया क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड)

अग्रवेन स्पिन्सर्स लिमिटेड

सीआईएन: L17297HR1998PLC034043

पंजीकृत कार्यालय: दूसरी मंजिल, एससीओ 404, सेक्टर-20, पंचकुला-134116

दूरभाष नं.: 0172-4644777 ईमेल: aggarsainspinners@gmail.com

वेबसाइट: www.aggarsainspinners.com

स्टैंडअलोन अन-ऑडिटेड वित्तीय परिणामों का उद्घरण 30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए

क्र. सं.	विवरण	स्टैंडअलोन			
		3 महीने समाप्त 30.09.2024 (अनऑडिटेड)	छमाही समाप्त 30.09.2024 (अनऑडिटेड)	वर्ष समाप्त 31.03.2024 (अनऑडिटेड)	3 महीने समाप्त 30.09.2023 (अनऑडिटेड)
1.	प्रचालन से कुल आय	2,880.32	5,159.89	9,258.65	2,378.27
2.	शुद्ध लाभ / (हानि) अर्थात् के लिए (कर से पहले, असाधारण और/या असाधारण मदों के बाद)	18.99	33.17	53.60	5.79
3.	कर से पूर्व की अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण और/या असाधारण मदों के बाद)	18.99	33.17	53.60	5.79
4.	कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण और/या असाधारण मदों के बाद)	13.10	22.23	39.50	4.31
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय/जिसमें लाभ/ (हानि) शामिल है, उस अवधि के लिए (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय।	350.34	350.34	350.34	350.34
6.	रिजर्व (पुनर्निर्माण मंडल को छोड़कर जैसा कि पिछले वर्ष की बेलेंस शीट में दिखाया गया है)				
7.	प्रति शेयर आय (असाधारण वस्तुओं से पहले) (वार्षिक नहीं) (प्रत्येक 10 रुपये की)	0.37	0.63	1.13	0.12
8.	प्रति शेयर आय (असाधारण वस्तुओं से पहले) (वार्षिक नहीं) (प्रत्येक 10 रुपये की)	0.37	0.63	1.13	0.12
9.	प्रति शेयर आय (असाधारण वस्तुओं के बाद) (वार्षिक नहीं) (प्रत्येक 10 रुपये की)	0.37	0.63	1.13	0.12
10.	प्रति शेयर आय (असाधारण वस्तुओं के बाद) (वार्षिक नहीं) (प्रत्येक 10 रुपये की)	0.37	0.63	1.13	0.12

नोट: 1. उपरोक्त सेबी (लिस्टिंग एवं अन्य प्राकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के समक्ष दायर अलेक्जेंडर रिपोर्ट वित्तीय परिणाम के विस्तृत प्रारूप का एक निष्कर्ष है। वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.mseil.in) और कंपनी की वेबसाइट (www.aggarsainspinners.com) पर उपलब्ध है।

2. उपरोक्त परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई है और 13.11.2024 को हुई अपनी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई है।

हस्ता/— अग्रवेन स्पिन्सर्स लिमिटेड के लिए

स्थान: पंचकुला दिनांक: 13.11.2024

एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

(पूर्व में फुलरटन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड)

कार्यालय: 10वीं मंजिल, कार्यालय सं. 101, 102 तथा 103, 2 नॉर्थ एवेन्यू, मेकर मैसिटी, वांडा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, वांडा (पू.), मुंबई-400051

कार्यालय: 10वीं मंजिल, कार्यालय सं. 101, 102 तथा 103, 2 नॉर्थ एवेन्यू, मेकर मैसिटी, वांडा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, वांडा (पू.), मुंबई-400051

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

वित्तीय परिणामों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए 30 दिनों की ई-नौलामी बिक्री नोटिस, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के नियम 9(1) के प्रावधान के साथ पठित। इससे प्राप्त आय जनता को तथा विशेष रूप से व्यापकताओं और गारंटियों को कृपया ध्यान दें कि नीचे सूचीबद्ध अचल संपत्तियों (सूचित संपत्तियों) की बिक्री अचल संपत्ति के पास कर/अवधि है, निम्नलिखित एग्रेसिव फंडिंग इण्डिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (पूर्व में फुलरटन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड) (जिसे आगे से एग्रेसिव फंडिंग इण्डिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के रूप में संदर्भित किया गया है) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया गया है। एग्रेसिव फंडिंग इण्डिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (पूर्व में फुलरटन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड) के आदेश पर बेचा जाएगा, ताकि नीचे उल्लिखित देनदारियों और वस्तुओं की तारीख तक उस पर व्याज और अन्य खर्चों की वसूली हो सके, जो नीचे उल्लिखित उधारकर्ता(ओं) और गारंटियों(ओं) से एग्रेसिव फंडिंग इण्डिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड को देव है।

क्र. सं.	उधारकर्ता/गारंटियों का नाम	संपत्तियों का विवरण	अचल मूल्य (रुपये में)	ई-नौलामी की तिथि और समय	ई-नौलामी की तिथि
1.	लैन नंबर 60543921/1312509	तीसरी मंजिल का सामने का हिस्सा, एच/टेरेस अधिकारों के साथ, निर्मित संपत्ति संख्या 23 भाग बी-1 पर, क्षेत्रफल 60 वर्ग मज, यानी 50.17 वर्ग मीटर, कुल क्षेत्रफल 100 वर्ग मज में से, खसरा संख्या 104/22/1 का हिस्सा, मांग पालम दिल्ली राज्य दिल्ली कॉलोनी के क्षेत्र में स्थित, जिसे ब्लॉक-ई, राजा पुर उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 के नाम से जाना जाता है।	रु. 25,50,000/-	16.12.2024 सुबह 11.00 बजे से	14.12.2024
2.	अधीन सलाहद्वारा 2. सलाहद्वारा	रु. 2,55,000/-	01.00 बजे तक		

जिसे के विस्तृत विवरण और तथ्य नीचे दी गई हैं और विवरण हमारे/सूचित प्रकटाता की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक/वेबसाइट पर (<https://disposalhub.com>) और <https://www.grihashakti.com/pdf/E-Auction.pdf> पर भी दिए गए हैं। इच्छुक बोलियां निम्नलिखित से: श्री आशीश कांशल, अधिभूत व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर 8527134222, ई-मेल: Ashish.Kanshal@grihashakti.com और श्री निलोय डे, उक्त मोबाइल नंबर 9920697801, ई-मेल: Niloy.Dey@grihashakti.com पर भी संपर्क कर सकते हैं।

हस्ता/— प्राधिकृत अधिकारी, एग्रेसिव फंडिंग इण्डिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (पूर्व में फुलरटन इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड)

स्थान: दिल्ली दिनांक: 12.11.2024

अग्रवाल डुप्लेक्स बोर्ड मिस्स लिमिटेड

सीआईएन: L99999DL1984PLC019052

पंजी कार्यालय: 217, अग्रवाल प्रेस्टीज मॉल, प्लॉट नंबर 2 कम्युनिटी सेंटर, रोड नंबर 44 के साथ, पीतमपुरा, दिल्ली - 110034

बोर्ड: +91 11 47527700, फैक्स: +91 11 47527777, ई-मेल: agarwalduplex1984@gmail.com, वेबसाइट: www.agarwalduplex.net

30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए अनऑडिटेड वित्तीय परिणाम

क्र. सं.	विवरण	रु. लाख में					
		स्टैंडअलोन					
		30-सितंबर-24 (अनऑडिटेड)	30-सितंबर-24 (अनऑडिटेड)	30-सितंबर-23 (अनऑडिटेड)	30-जून-24 (अनऑडिटेड)	30-सितंबर-23 (अनऑडिटेड)	31-मार्च-24 (अनऑडिटेड)
1.	प्रचालन से कुल आय	5291.81	10108.87	4057.36	4817.06	8333.48	16,862.33
2.	कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण और/या असाधारण मदों से पूर्व)	4.96	10.84	25.54	5.88	51.12	2.63
3.	कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण और/या असाधारण मदों के बाद)	4.96	10.84	25.54	5.88	51.12	2.63
4.	कर पश्चात की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/या असाधारण मदों के बाद)	8.84	8.23	18.99	-0.61	38.13	-12.39
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय (लाभ/(हानि) अर्थात् के लिए (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)	8.84	8.23	18.99	-0.61	38.13	4.54
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	1350.00	1350.00	1350.00	1350.00	1350.00	1350.00
7.	रिजर्व (पुनर्निर्माण मंडल को छोड़कर जैसा कि पिछले वर्ष की बेलेंस शीट में दिखाया गया है)						1637.84
8.	प्रति शेयर आय (रु. 1/- प्रत्येक)						
1.	बेसिक:	0.00	0.00	0.01	0	0.03	-0.02
2.	डायल्यूटेड:	0.00	0.00	0.01	0	0.03	-0.02

नोट: 1. उपरोक्त सेबी (निर्माण दायित्व और प्राकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर 30.09.2024 को समाप्त तिमाही और छमाही के अनऑडिटेड वित्तीय परिणाम के विस्तृत प्रारूप का एक उद्घरण है। तिमाही और छमाही के अनऑडिटेड वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.mseil.in) और कंपनी की वेबसाइट <https://www.agarwalduplex.net/financial-results> पर उपलब्ध है।

2. उपरोक्त परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई और निदेशक मंडल द्वारा 13.11.2024 को आयोजित बैठक में निदेशकों में लिया गया और सांख्यिक लेखापरीक्षा के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है और इन वित्तीय परिणामों पर एक अंशशोधित रिपोर्ट व्यक्त की है।

अग्रवाल डुप्लेक्स बोर्ड मिस्स लिमिटेड

हस्ता/— नीरज गोयल

स्थान: दिल्ली दिनांक: 13/11/2024

प्रबंध संचालक DIN: 00017498

ट्रैकेप फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 301, प्लॉट, ए.सी.डी. 1, हंस, ओएन नगर, रोड, अरुणा (एच.टी.), मुंबई-400009, महाराष्ट्र

GST नं: 27AAACD9882D12C

Corporate Identity Number: L64920MH1994PLC334457

शुद्धिपत्र

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि जनसत्ता (हिन्दी)- दिल्ली- एनसीआर संस्करण, निर्माण तिथि 11 नवम्बर, 2024 में ट्रैकेप फाइनेंस लिमिटेड, 2993, पुराना बस स्टैंड रोड (मैन रोड), त्रिनागर, दिल्ली-110035 का एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था जिसमें कॉर्पोरेट पहचान संख्या L24231MH1994PLC334457 गलत प्रकाशित की गयी है। सही कॉर्पोरेट पहचान सं. L64920MH1994PLC334457 है जिसका ध्यान रखें।

Criminal Courts, Ludhiana

In The Court Of Ms. Shweta JMIC Ludhiana Peshi: 21-11-2024

publication notice for proclamation under section 82 CRPC

complaint the sec- 138 of N.I.ACT

M/s Nexo Industries Pvt. Ltd vs. m/s EMI Transmission Ltd.

COMA/193/19 CNR NO. PBLD03-008286-2019

Notice To: 1. m/s EMI transmissions ltd, 101 first floor, centre point, dr. babasaheb ambedkar road, parel mumbai, mumbai city- MH through its directors

sanjay rasalkal sheth 2. sanjay rasalkal sheth director m/s emi transmissions ltd 101 first floor, centre point / dr. babasaheb ambedkar road, parel mumbai, mumbai city- MH 3. baburao pratapsingh deshmuah director m/s EMI transmissions ltd 101, first floor, centre point, dr. babasaheb ambedkar road, parel mumbai, mumbai city- MH 4. krishna rasalkal sheth director m/s EMI transmissions ltd 101 first floor, centre point, dr. babasaheb ambedkar road, parel mumbai, mumbai city- MH 5. ashok kulkarni subahagan, director m/s emi transmissions ltd 101 first floor, centre point, dr. babasaheb ambedkar road, parel mumbai, mumbai city- MH

Whereas it has been proved to the satisfaction of the court that you, the accused above named can't be served in the ordinary way of service, hence this proclamation under section 82 crpc is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 21-11-2024 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation, take notice that, in default of your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence, given under my hand and the seal of the court, for details login to: https://highcourthd.gov.in/7rs-district_notice&dist=ldhiana JMIC Ludhiana

Criminal Courts, Ludhiana

In The Court Of Ms. Shweta JMIC Ludhiana Peshi: 29-11-2024

publication notice for proclamation under section 82 CRPC

complaint the sec- 138 of N.I.ACT

M/s Sharu Steel Vs. M/s Naini Auto Tech

COMA/9481/2017 CNR NO. PBLD03-028759-2017

Notice To: 2. sh. jeevan c. pandey, director /partner, m/s naini auto tech. 3. shuchi bharadwaj, director/partner, m/s naini auto tech all c/o plot no 403/1/7, khasra no. 547, village shrinla postol, kichha road, rudrapur (uttrakhand) second address: house no 62, ramji vihar dewal chaud, haldwani uttrakhand residential address of accused no 3 plot no 21, kichha road, idia colony, rudrapur uttrakhand

Whereas it has been proved to the satisfaction of the court that you, the accused above named can't be served in the ordinary way of service, hence this proclamation under section 82 crpc is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 29-11-2024 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation, take notice that, in default of your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence, given under my hand and the seal of the court, for details login to: https://highcourthd.gov.in/7rs-district_notice&dist=ldhiana JMIC Ludhiana

Criminal Courts, Ludhiana

In The Court Of Ms. Shweta JMIC Ludhiana Peshi: 10-12-2024

publication notice for proclamation under section 82 CRPC

complaint the sec- 138 of N.I.ACT

M/s Shree Sanksheshwar Krit Vs. M/s Baba Garments

COMA/10400/2020 CNR NO. PBLD03-056019-2020

Notice To: 1. M/s Baba Garments Opposite Govt. Hospital Badrinath Marg, Koldwara, Podi Garhwal, Uttrakhand Through its Proprietor/ Authorized Signatory 2. Mr. Manoj Aggarwal Proprietor/ Authorized Signatory Of M/s Baba Garments, Opposite Govt. Hospital, Badrinath Marg, Koldwara, Podi Garhwal Uttrakhand

Whereas it has been proved to the satisfaction of the court that you, the accused above named can't be served in the ordinary way of service, hence this proclamation under section 82 crpc is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 10-12-2024 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation, take notice that, in default of your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence, given under my hand and the seal of the court, for details login to: https://highcourthd.gov.in/7rs-district_notice&dist=ldhiana JMIC Ludhiana

DELHI INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED

Regd. Office: New Udaan Bhaswan, Opp Terminal 3, Indira Gandhi International Airport, New Delhi - 110037, India

PUBLIC NOTICE

Ensuring safe and efficient airplane operations relies heavily on effective wildlife management both at and around the airport. The cooperation of the local community is vital for maintaining proper waste management and hygiene in the surrounding areas. Preventing unsanitary conditions and garbage accumulation is essential, as these can attract animals, including birds. Once drawn to these areas, animals may establish a presence, which could disrupt the smooth functioning of airport operations.

Common sources that attract animals are as